

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17—दिसम्बर 23, 2016 (अग्रहायण 26, 1938)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17—DECEMBER 23, 2016 (AGRAHAYANA 26, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2016

सेना शाखा

सं. 249, दिनांक 31 अक्टूबर 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित पद सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

लै0 के पद पर

निम्नलिखित 44 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-44 पाठ्यक्रम के हैं, लैफ्टिनेंट के पद पर पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत हैं को उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 12 मार्च 2016 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 15 मार्च

2015 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है: —

एस एस नं.		नाम	आर्म / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस-48622	वाई	हितेश खड़ायत	इन्फैन्ट्री	06 अप्रैल 15
एस एस-48624	के	नितिन राज सिंह	इंजीनियर्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48626	पी	संजीवारड्डी बी पाटिल	सिग्नल्स	07 अक्तूबर 14
एस एस-48627	एक्स	जगदीश सिंह	इंजीनियर्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48628	ए	परविंदर सिंह	ए एस सी	07 अक्तूबर 14
एस एस-48630	एक्स	निखिल कुमार	इन्फैन्ट्री	06 अप्रैल 15
एस एस-48631	ए	प्रमोद कुमार	ई एम ई	06 अप्रैल 15
एस एस-48632	एच	गुन्टीरेडडी भाग्यराज	ई एम ई	06 अप्रैल 15
एस एस-48633	एल	अक्षय सिंह	ए सी	07 अक्तूबर 14
एस एस-48634	एन	सतीश जी	ई एम ई	06 अप्रैल 15
एस एस-48638	के	अंकित के	आर्टी	06 अप्रैल 15
एस एस-48639	एम	श्रीनाथ एस	सिग्नल्स	07 अक्तूबर 14
एस एस-48643	पी	अजय कुमार वी	इंजीनियर्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48644	एक्स	सौरभ लखनपाल	इंजीनियर्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48645	ए	सिद्धार्थ मणि	सिग्नल्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48648	एन	सतीश गुप्ता	एविएशन	06 अप्रैल 15
एस एस-48649	डब्ल्यू	जयपाल	ए ओ सी	06 अप्रैल 15
एस एस-48650	एल	राठोड रुपेश माणिकराव	सिग्नल्स	07 अप्रैल 14
एस एस-48654	एफ	अमित कुमार	इंजीनियर्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48655	के	सिद्धार्थ मिश्रा	आर्टी	06 अप्रैल 15
एस एस-48656	एम	बेन्जामिन जैफरी डी	इन्फैन्ट्री	06 अप्रैल 15
एस एस-48657	पी	संदीप तिवारी	इंजीनियर्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48658	एक्स	अक्षय प्रताप सिंह	इंजीनियर्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48659	ए	प्रणव श्योरन	आर्टी	06 अप्रैल 15
एस एस-48662	ए	देश दीपक तिवारी	इन्फैन्ट्री	06 अप्रैल 15
एस एस-48663	एच	नन्दा गोपाल वी	इन्फैन्ट्री	06 अप्रैल 15
एस एस-48668	एफ	सावन वर्मा	मैक	06 अप्रैल 15
एस एस-48671	एफ	एस अनुराग मोहन	इन्ट	06 अप्रैल 15
एस एस-48672	के	अभिषेक नेहरा	इन्फैन्ट्री	06 अप्रैल 15
एस एस-48675	एक्स	समीत राणा	इन्फैन्ट्री	06 अप्रैल 15

एस एस नं.		नाम	आर्म/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस-48677	एच	राधेश आर	ई एम ई	06 अप्रैल 15
एस एस-48679	एन	जेरी बर्नाड डी	ए ओ सी	06 अप्रैल 15
एस एस-48681	एल	राहुल सिवनाथन	एविएशन	06 अप्रैल 15
एस एस-48682	एन	विशाल एस नायर	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 14
एस एस-48686	के	अंबाट जोसफ जॉनसन	इंजीनियर्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48687	एम	हेमचंद मित्थी	ए ए डी	06 अप्रैल 15
एस एस-48688	पी	अक्षय श्रीदेव	एविएशन	06 अप्रैल 15
एस एस-48689	एक्स	जॉनसन वरगीश कोझीकोथीकल	आर्टी	06 अप्रैल 15
एस एस-48690	एम	मयंक कौशिक	ई एम ई	06 अप्रैल 15
एस एस-48691	पी	प्रतीक राणा	ई एम ई	06 अप्रैल 15
एस एस-48692	एक्स	विवेक जी	ए एस सी	06 अप्रैल 15
एस एस-48693	ए	गुरजींदर सिंह	इंजीनियर्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48694	एच	दिशान्त कटारिया	सिग्नल्स	06 अप्रैल 15
एस एस-48696	एन	विभोर द्विवेदी	आर्टी	06 अप्रैल 15

निम्नलिखित एक लेडी कैडेट, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-12 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) लै0 के पद पर उनको सम्मुख अंकित तिथि से पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए लो कि आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 13 सितम्बर 2014 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 15 सितम्बर 2013 से विशेष सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है: -

आकांक्षा अरोरा (एस एस 47745 वाई) सिग्नल्स (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि-07 अक्टूबर 13) की वरिष्ठता सोनिया सांगवान (एस एस 47742 एल)के नीचे।

निम्नलिखित एक अधिकारी, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-96 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 14 सितम्बर 2013 को शुरू हुआ था, लै0 के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 14 सितम्बर 2013 से 10 वर्ष के लिए लै0 के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथासंशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है:-

आर रवि शंकर (एस एस-46723एन) इन्फैन्ट्री की वरिष्ठता राजेश कुमार (एस एस-46724डबल्यू) आर्टी के ऊपर।

निम्नलिखित 68 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-101 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 12 मार्च 2016 को शुरू हुआ था, लै0 के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 12 मार्च 2016 से 10 वर्ष के लिए लै0 के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथा संशोधित, के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/ए जी/पी एस-2(ए)डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) प्रदान किया जाता है : -

एस एस सं0		नाम	आर्म्स/सर्विसिस
एस एस-48514	पी	परिक्षित बावा	ए सी
एस एस-48517	एच	अरुण कुमार	इन्फैन्ट्री
एस एस-48520	एच	रंजीत कुमार	आर्टी

एस एस सं०	नाम	आर्म्स/सर्विसिस
एस एस-48521	एल मनोज एस	इन्फैन्ट्री
एस एस-48522	एन शाह मुनीब रज़ा	जैग
एस एस-48524	वाई रघु दत्त कौशिक	ए ए डी
एस एस-48526	के प्रशान्त कुमार शर्मा	जैग
एस एस-48527	एम राकेश कृष्णा	आर्टी
एस एस-48528	पी तीगवरपु श्रीतेज भरद्वाज	सिग्नल्स
एस एस-48529	एक्स युद्धवीर सिंह	मैक
एस एस-48530	एम अनिमेश न्यूटन	ए एस सी
एस एस-48532	एक्स ठाकरे आकाश अशोक	इंजीनियर्स
एस एस-48535	एल ऋषि राज देव	ई एम ई
एस एस-48537	डब्ल्यू आबासाहिब विलास देवकर	इंजीनियर्स
एस एस-48538	वाई चित्तरंजन बलियार सिंह	ए एस सी
एस एस-48539	एफ ऐश्वर्य शाह	इन्फैन्ट्री
एस एस-48540	डब्ल्यू आशिम शर्मा	आर्टी
एस एस-48541	वाई विशाल	आर्टी
एस एस-48544	एम भाटी प्रद्युमनसिंह भारतसिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस-48545	पी परमवीर मट्टू	ए ओ सी
एस एस-48546	एक्स बलवीर सिंह राठौड	इन्फैन्ट्री
एस एस-48547	ए अमोल धायतडक	ए ओ सी
एस एस-48550	ए रूस्तम सिंह ठाकुर	जैग
एस एस-48552	एल अनिल	ए ओ सी
एस एस-48553	एन यशोवर्धन	आर्टी
एस एस-48554	डब्ल्यू अमित कुमार दहिया	इन्फैन्ट्री
एस एस-48555	वाई शिरवईकर अनीश पराग	इन्फैन्ट्री
एस एस-48557	के भट्ट प्रणव जितेन्द्र	ए एस सी
एस एस-48558	एम दिग्विजय सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस-48559	पी फुलसुंदर किरण बाबाजी	ई एम ई
एस एस-48561	एम अभय निगम	ए ए डी
एस एस-48562	पी कृष्णा गोपीनाथ शेणॉय	मैक
एस एस-48563	एक्स पुनीत शर्मा	आर्टी
एस एस-48565	एच गुरदीप सिंह	आर्टी
एस एस-48566	एल किशोर ए	इन्फैन्ट्री
एस एस-48568	डब्ल्यू विवौंगबो विजुनमय	इन्फैन्ट्री
एस एस-48569	वाई श्रीवत्सन के	इन्फैन्ट्री
एस एस-48570	एन नितेश कृष्णा केलस्कर	एविएशन

एस एस सं०	नाम	आर्म्स/सर्विसिस
एस एस-48572	वाई प्रतीक कुमार सिंह	आर्टी
एस एस-48573	एफ आदित्य राणा	ई एम ई
एस एस-48577	एक्स शिर्के अंकित राजन	आर्टी
एस एस-48581	ए सशांक थापा	इन्फैन्ट्री
एस एस-48582	एच माधवेन्द्र सिंह चौहान	जैग
एस एस-48583	एल अनुपम वशिष्ठ	ए ए डी
एस एस-48585	डब्ल्यू प्रकाश सिंह ठाकुर	ए ओ सी
एस एस-48588	के परमिन्दर सिंह	इंजीनियर्स
एस एस-48589	एम खोत अजिंक्यगुरु तुकाराम	सिग्नल्स
एस एस-48590	एफ मयंक रत्ती	ई एम ई
एस एस-48591	के मिहिर पोखरियाल	इन्फैन्ट्री
एस एस-48592	एम अर्पण पाण्डे	इन्फैन्ट्री
एस एस-48594	ए के शिवसुलभ नाम्बियार	आर्टी
एस एस-48596	एच अंशु जगमोहन अरुण कुमार	ए ए डी
एस एस-48597	एल ऋषभ प्रियदर्शी	ए एस सी
एस एस-48599	डब्ल्यू एच एस हुड्डा	ए सी
एस एस-48600	ए श्रेय कोटनाला	इन्फैन्ट्री
एस एस-48601	एच विनय शर्मा	सिग्नल्स
एस एस-48602	एल अधिराज राणा	इन्फैन्ट्री
एस एस-48603	एन भुपेश कुमार शर्मा	आर्टी
एस एस-48604	डब्ल्यू आर्कोट साई दीक्षित	एविएशन
एस एस-48606	एफ समीर राव	इन्फैन्ट्री
एस एस-48607	के ज्योति प्रकाश श्रेयस	इन्फैन्ट्री
एस एस-48608	एम अनुज सभरवाल	जैग
एस एस-48609	पी डेविड सिरिल बाबू	आर्टी
एस एस-48611	एम पार्थ दयाल	इन्फैन्ट्री
एस एस-48613	एक्स कमलदीप मलिक	जैग
एस एस-48614	ए गुरईकबाल सिंह	मैक
एस एस-48618	डब्ल्यू सहदेव सिंह राठौड	आर्टी
एस एस-48619	वाई मिर अलि हुसैन	ए सी

निम्नलिखित दो जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (टैक)-39 पाठ्यक्रम के हैं, लैफ्टिनेंट के पद पर पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत है को उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 14 सितम्बर 2013 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 16 सितम्बर 2012 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है:-

रत्नाकर पाण्डेय(एस एस-46921 वाई) ए ओ सी (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि - 08-अक्टूबर-12) की वरिष्ठता विकास कुमार(एस एस-46920 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री के नीचे, मनीष कुमार(एस एस-46944 ए) आर्टी (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि-08-अक्टूबर-12) की वरिष्ठता वरुण जोशी(एस एस-46942 पी) इन्फैन्ट्री के नीचे,

निम्नलिखित दो अधिकारी, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (टैक)—42 पाठ्यक्रम के हैं, लैफ्टिनेंट के पद पर पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत हैं को उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 14 मार्च 2015 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 16 मार्च 2014 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है: —

कुमार अभिषेक सिंह (एस एस-47944 एम) सिग्नल्स (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता एस विग्नेश (एस एस-47945 पी) इंजीनियर्स के ऊपर एवम् रणदीप सिंह (एस एस-47970 एन) इन्फैन्ट्री (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता प्रमेश सिंह (एस एस-47969 वाई) इन्फैन्ट्री के नीचे।

अभिषेक तिवारी
मेजर
ए एम एस 8बी

थल सेना शाखा

सं. 250, दिनांक 1 नवम्बर 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

मेजर जनरल (व समकक्ष) से लेफ्टिनेंट जनरल (व समकक्ष) के पद पर

बिपिन पुरी (एमआर—03993पी)	—	01-04-2016
पवन कपूर, वीएसएम (एमआर—04049एन)	—	10-06-2016, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-06-2016 से दी जाती है।

एयर कर्माडोर (व समकक्ष) से एयर वाईस मार्शल (व समकक्ष) के पद पर

आर एस वसन्त कुमार (एमआर—05437एक्स)(एफ-34393-एल)		01-06-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-15 से दी जाती है।
--	--	--

ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) से एयर कर्माडोर (व समकक्ष) के पद पर

आदित्य भार्गव (एमआर-05295एल)(एफ-18184-के)	—	11-05-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03-02-15 से दी जाती है।
एच साहनी (एमआर—05331एल)(एफ-18192-एच)	—	12-05-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 30-04-15 से दी जाती है।
बी नंदी, वीएसएम (एमआर—05332एन) (एफ-18188-एफ)	—	12-05-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-15 से दी जाती है।
आर वैद्या (एमआर—05333डब्ल्यू) (एफ-18251-के)	—	01-06-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-05-15 से दी जाती है।
आर एम शर्मा (एमआर-05710एफ)(एफ-18851-एन)	—	01-10-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-10-15 से दी जाती है।
आशुतोष शर्मा (एमआर-05324पी)(एफ-17987-के)	—	30-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-11-14 से दी जाती है।
आर के चौधरी (एमआर-05974एच)(एफ-18384-एफ)	—	30-12-14, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-11-14 से दी जाती है।

ए आलम (एमआर-05328एल)(एएफ-18190-ए)	-	01-02-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-01-15 से दी जाती है।
एन तनेजा (एमआर-05329एन)(एएफ-18187-ए)	-	01-02-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 08-01-15 से दी जाती है।
एस एस नायर, वीएसएम (एमआर-05977डब्ल्यू)(एएफ-18197-जी)	-	21-07-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 04-06-15 से दी जाती है।

ले कर्नल (व समकक्ष) से कर्नल (व समकक्ष) के पद पर

डी बैनर्जी (एमआर-07386एन)	-	27-02-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-01-15 से दी जाती है।
सोनाली पाससी वर्मा (एमआर-06624एच)	-	20-02-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-02-15 से दी जाती है।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के पद पर

वाई सुगुमार पी (एनटीआर-16636एल)	-	01-05-2016
पी एस रेड्डी (एनटीआर-16637एन)	-	01-06-2016
सुरिंदर सिंह (एनटीआर-16609एफ)	-	01-04-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-09-15 से दी जाती है।
बीरेंद्र सिंह (एनटीआर-16626एफ)	-	07-09-15, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02-09-15 से दी जाती है।
वाई पी सिंह (एनटीआर-16627के)	-	01-12-15
एल सी कटोच (एनटीआर - 16632पी)	-	01-01-16

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले. कर्नल से कर्नल (कालमान) के पद पर

एमआर-07449एल	ले. कर्नल	सुभाष गौतम	18 अप्रैल 2016
--------------	-----------	------------	----------------

विंग कमांडर से गुप कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-06708डब्ल्यू (एएफ-21681-बी)	विंग कमांडर	के सुगंधी	11 दिसंबर 2015
एमआर-06811एफ (एएफ-21499-बी)	विंग कमांडर	पंकज पंत	30 मार्च 2015

आर के रान्याल
एयर वाइस मार्शल
अपरमहानिदेशक स.से.चि.से. (मा.सं.)

थल सेना शाखा

सं. 251, दिनांक 2 नवम्बर 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले. कर्नल से कर्नल (कालमान) के पद पर

एमआर-06725डब्ल्यू	ले. कर्नल	ए सी बधवार	06 जुलाई 2016
एमआर-06248ए	ले. कर्नल	कन्नन नारायणन	12 दिसंबर 2015
एमआर-07149के	ले. कर्नल	ए भार्गव	14 मई 2016
एमआर-06432एल	ले. कर्नल	हेमलथा कक्कड	03 जून 2016

सर्ज कमांडर से सर्ज कैप्टन (टीएस) के पद पर

एमआर-06322डब्ल्यू (75515—जेड)	सर्ज कमांडर	सी एस सक्सेना	24 जुलाई 2016
-------------------------------	-------------	---------------	---------------

बी श्रीधर
ब्रिगे.

उपमहानिदेशक स.से.चि.से. (मा.सं.)

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 252, दिनांक 3 नवम्बर 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हैं —

ले. कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कर्नल एस जयालक्ष्मी	एन आर-18624 पी	10 जून 2016
कर्नल एस सूर्याप्रभा	एन आर-18280 एफ	13 जून 2016
कर्नल आई डेलोस फ्लोरा	एन आर-18293 वाई	15 जून 2016
कर्नल आर सरस्वती	एन आर-18313 एफ	21 जून 2016

ले. कर्नल (समयमान) से ले. कर्नल (सेलेक्ट)

ले. कर्नल सरोज बाला	एन आर-19021 एल	11 जुलाई 2016
ले. कर्नल विजया लक्ष्मी वी एम	एन आर-18827 वाई	11 जुलाई 2016
ले. कर्नल ऐनी पी वाई	एन आर-18917 ए	11 जुलाई 2016
ले. कर्नल जी आहुति कुमारी	एन आर-18939 वाई	11 जुलाई 2016
ले. कर्नल कमलम्मा पी जी	एन आर-18469 वाई	14 सितम्बर 2015
ले. कर्नल शर्ली के आई	एन आर-18781 एफ	14 सितम्बर 2015

मेजर से ले. कर्नल (समयमान)

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर एन मोडोली	एन आर-14841 एन	19 दिसम्बर 1991

सुशीला शाही
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक

थल सेना विभाग

सं. 253, दिनांक 4 नवम्बर 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लल्लू सिंह	(जेसी-403913ए)	01 अप्रैल 2016
सूबेदार इन्द्र पाल चतुर्वेदी	(जेसी-403923के)	01 मई 2016
सूबेदार अवधेश कुमार	(जेसी-403925पी)	01 मई 2016
सूबेदार रमजान खान	(जेसी-404001एन)	01 जून 2016

सूबेदार मेजर (क्लर्क एस डी) के रैंक में

सूबेदार(क्लर्क एस डी) श्याम लाल	(जेसी-404180वाई)	01 जून 2016
---------------------------------	------------------	-------------

सूबेदार मेजर (आर टी) के रैंक में

सूबेदार (आर टी) मृदुल कुमार	(जेसी-402002एक्स)	01 मई 2016
-----------------------------	-------------------	------------

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह शेखावत	(जेसी-405048एल)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार शंकर लाल सैनी	(जेसी-404799ए)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार अशोक चन्द जोशी	(जेसी-404790एल)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार देव राज वर्मा	(जेसी-404794एफ)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार जनम सिंह	(जेसी-404814के)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार दिवान सिंह	(जेसी-404979एच)	02 अप्रैल 2016*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शंकर दत्त जोशी	(जेसी-404987एफ)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार मोहन चन्द	(जेसी-405025के)	10 अप्रैल 2016*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रनछोर सिंह भदौरिया	(जेसी-404969वाई)	11 अप्रैल 2016*
---------------------------------	------------------	-----------------

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पुजेर रमेश लगामप्पा	(जेसी-404567एफ)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार उधम सिंह	(जेसी-404802ए)	01 जून 2016
नायब सूबेदार नेतर पाल	(जेसी-404906डब्ल्यू)	16 जून 2016*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जाती है)

नायब सूबेदार एस उत्तम कुमार सिंघा	(जेसी-404996एच)	01 मई 2016
नायब सूबेदार सतीस कुमार छेत्री	(जेसी-405092पी)	01 मई 2016
नायब सूबेदार एस आर रोकसन अनाल	(जेसी-405119एफ)	01 मई 2016
नायब सूबेदार नरेश कुमार	(जेसी-405129एल)	01 मई 2016

नायब सूबेदार लोकेश कुमार	(जेसी-405055एफ)	01 मई 2016
नायब सूबेदार राम दुलारे	(जेसी-405082एल)	01 मई 2016
नायब सूबेदार राम जनक सिंह	(जेसी-405083एन)	01 जून 2016
नायब सूबेदार श्याम किन्कर सिंह	(जेसी-405085वाई)	01 जून 2016
नायब सूबेदार रमेश चन्द्र वर्मा	(जेसी-405101एल)	01 जून 2016
नायब सूबेदार हंसराज यादव	(जेसी-405132एल)	01 जून 2016
नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र	(जेसी-405157एक्स)	01 जून 2016
नायब सूबेदार अतुल बोराह	(जेसी-405160एक्स)	01 जून 2016
नायब सूबेदार दिवान सिंह	(जेसी-405061पी)	02 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार किशोर सिंह बिष्ट	(जेसी-405118वाई)	02 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार टेक चन्द	(जेसी-405125पी)	01 मई 2016
नायब सूबेदार चौद सिंह	(जेसी-405194एल)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार एम एस बिजु कुमार	(जेसी-404820एक्स)	01 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मार्च 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार गबर सिंह	(जेसी-404711एल)	22 अप्रैल 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 फरवरी 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह बिष्ट	(जेसी-404716के)	22 अप्रैल 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 फरवरी 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार शैलेन्द्र बहादुर सिंह	(जेसी-404744डब्ल्यू)	27 अप्रैल 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मार्च 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार गजेन्द्र बहादुर सिंह	(जेसी-404745वाई)	01 मई 2016
नायब सूबेदार शकूर कथात	(जेसी-405200एन)	01 मई 2016
नायब सूबेदार रमेश चन्द	(जेसी-405224एक्स)	01 मई 2016
नायब सूबेदार अजमत बेग	(जेसी-404805एच)	02 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार रविन्दर सिंह	(जेसी-404807एन)	02 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह	(जेसी-404961एम)	30 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार अजय कुमार पान्डे	(जेसी-404587पी)	09 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार रंजीत गोगोई	(जेसी-404836एच)	14 जून 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार इन्द्र मोहन कुमार	(जेसी-404837एल)	01 जून 2016

नायब सूबेदार सत्येन्द्र नाथ राय	(जेसी-405147एन)	23 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र	(जेसी-405202वाई)	15 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार ओम प्रकाश	(जेसी-405203एफ)	14 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार राम किशोर सिंह खेनवार	(जेसी-405016एफ)	25 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार बीरेन्द्र यादवा	(जेसी-405032ए)	10 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार राम शरन	(जेसी-405304पी)	06 जून 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार जी अजी कुमार	(जेसी-405322एक्स)	01 जून 2016
नायब सूबेदार कृष्णन एस	(जेसी-404729एफ)	19 मई 2016*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार सत्यवान सिंह	(जेसी-405277 डब्ल्यू)	01 जून 2016
नायब सूबेदार मनी राम	(जेसी-405255एक्स)	01 जून 2016
नायब सूबेदार पुष्पेन्द्र कुमार नेहरा	(जेसी-404948एच)	01 जून 2016
सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में		
नायब सूबेदार सुरेश कुमार	(जेसी-405124एम)	01 जून 2016
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार पाटिल सरजेराव हरी	(सं. 13697097पी अब जेसी-405508एफ)	01 अप्रैल 2016
हवलदार शेर सिंह	(सं. 13695978पी अब जेसी-405551एच)	01 जून 2016
हवलदार नरेश कुमार	(सं. 13696108के अब जेसी-405552एल)	01 जून 2016
हवलदार नारायणपुरे भरत बाबूराव	(सं. 13693300एच अब जेसी-405532एक्स)	01 जून 2016
हवलदार रणधीर सिंह	(सं. 13693281एच अब जेसी-405521एल)	01 मई 2016
हवलदार चन्द्र सिंह	(सं. 13693348डब्ल्यू अब जेसी-405547ए)	01 मई 2016
हवलदार अनिल चन्द बोरा	(सं. 13693375ए अब जेसी-405522एन)	01 मई 2016
हवलदार थेनखोलाल हुंगडिम	(सं. 13698622एम अब जेसी-405523डब्ल्यू)	01 मई 2016
हवलदार टी एच मंगी सिंघा	(सं. 13694562एल अब जेसी-405509के)	01 मई 2016
हवलदार शक्ती सिंह	(सं. 13695265के अब जेसी-405510वाई)	01 मई 2016
हवलदार सुनील कुमार सिंह	(सं. 13695335एक्स अब जेसी-405512के)	01 मई 2016
हवलदार ओम प्रकाश सिंह यादव	(सं. 13695364एम अब जेसी-405511एफ)	01 मई 2016
हवलदार रज्जन लाल	(सं. 13695577ए अब जेसी-405536एन)	07 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जाती है)		
हवलदार नरेन्द्र सिंह	(सं. 13695653एफ अब जेसी-405537डब्ल्यू)	01 जून 2016

हवलदार श्री विनोद कुमार टिकरे	(सं. 5686एफ अब जेसी-405538वाई)	01 जून 2016
हवलदार ब्रिज राज चौहान	(सं. 13695798एम अब जेसी-405539एफ)	01 जून 2016
हवलदार सुमन पाल सिंह	(सं. 13695961एफ अब जेसी-405540डब्ल्यू)	01 जून 2016
हवलदार लोकेश कुमार शर्मा	(सं. 13696165एल अब जेसी-405541वाई)	01 जून 2016
हवलदार अनिल कुमार	(सं. 13694444एक्स अब जेसी-405507वाई)	05 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
हवलदार रण सिंह	(सं. 13694572पी जेसी-405513एम)	01 मई 2016
हवलदार महेश चन्द्र	(सं. 13695074पी अब जेसी-405514पी)	01 मई 2016
हवलदार शिव मूरत यादवा	(सं. 13696911एच अब जेसी-405515एक्स)	02 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2015 से दी जाती है)		
हवलदार धरमिन्दर सिंह	(सं. 13694082एफ अब जेसी-405516ए)	02 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
हवलदार सुदर्शन शर्मा	(सं. 13697476एल अब जेसी-405517एच)	02 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
हवलदार अशोक सिंह	(सं. 13695801एफ अब जेसी-405518एल)	02 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
हवलदार सुरेश पाल	(सं. 13695296के अब जेसी-405524वाई)	06 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च 2016 से दी जाती है)		
हवलदार कंदन एम	(सं. 13694405वाई अब जेसी-405520एच)	19 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
हवलदार लाल जी ठाकुर	(सं. 13697110एन अब जेसी-405545पी)	12 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
हवलदार हरीश कुमार	(सं. 13696790एम अब जेसी-405519एन)	12 मई 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
हवलदार लक्ष्मी नारायण	(सं. 13696979के अब जेसी-405548एच)	20 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
हवलदार परवीन कुमार	(सं. 13695231डब्ल्यू अब जेसी-405533ए)	01 जून 2016
हवलदार गोंडे ओरन	(सं. 13694246एम अब जेसी-405525एफ)	04 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अप्रैल 2016 से दी जाती है)		
हवलदार त्रिभुवन सिंह	(सं. 13694258एफ अब जेसी-405526के)	04 जून 2016
हवलदार फकिरप्पा चौगुले	(सं. 13695151वाई अब जेसी-405527एम)	04 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
हवलदार हरदत्त सिंह	(सं. 13695190एक्स अब जेसी-405528पी)	04 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
हवलदार जय सिंह	(सं. 13695314एफ अब जेसी-405529एक्स)	04 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		

हवलदार राजेश पाल	(सं. 13695411वाई अब जेसी—405530एम)	04 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
हवलदार जाला राजेन्द्र सिंह तखात	(सं. 13695420ए अब जेसी—405534एच)	04 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जाती है)		
हवलदार मुन्ना लाल	(सं. 13696632एक्स अब जेसी—405535एल)	04 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जाती है)		
हवलदार मनोज सिंह सिकरवार	(सं. 13694655ए अब जेसी—405542एफ)	14 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2016 से दी जाती है)		
हवलदार मनोज पाण्डेय	(सं. 13696036एल अब जेसी—405543के)	14 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2016 से दी जाती है)		
हवलदार सुबोध कुमार	(सं. 13696082ए अब जेसी—405544एम)	20 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2016 से दी जाती है)		
हवलदार विनय कुमार चौधरी	(सं. 13696093एम अब जेसी—405546एक्स)	14 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है)		
हवलदार वीनू पी	(सं. 13695142एक्स अब जेसी—405549एल)	29 जून 2016*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मई 2016 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में		
हवलदार (क्लर्क एस डी) अरुण सरकार	(सं. 13694580एन अब जेसी—405531पी)	01 जून 2016

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार ललन कुमार	(जे सी—421303 डब्ल्यू)	04 जनवरी 2016•
• (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।)		
सूबेदार श्रीनिवासन एस	(जे सी—421424 एक्स)	18 अप्रैल 2016•
• (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।)		
सूबेदार उमेश कुमार बल	(जे सी—421122 एल)	01 अप्रैल 2016
सूबेदार ओमकार सिंह	(जे सी—421128 एम)	01 अप्रैल 2016
सूबेदार श्याम पाल सिंह	(जे सी—421261 पी)	01 अप्रैल 2016
सूबेदार (एस के टी) दयाल राम चौहान	(जे सी—421431 एन)	04 मई 2016 •
• (सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
सूबेदार(लिपिक) रवि प्रसाद शर्मा	(जे सी—421598 एक्स)	01 अगस्त 2016

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रसमाला कृष्णा मूर्ति	(जे सी—421892 एक्स)	01 जनवरी 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अक्टूबर 2015 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार कृष्ण कुमार	(जे सी—421810 के)	01 मार्च 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2015 से दी जाती है।)		

नायब सूबेदार अशरफ मण्डल	(जे सी-422316 ए)	01 मार्च 2016
नायब सूबेदार विनोद कुमार	(जे सी-422399 डब्ल्यू)	23 मई 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार गणेश कुमार मण्डल	(जे सी-421746 एक्स)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार पारस यादव	(जे सी-421939 एक्स)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार चौल बहादुर थापा	(जे सी-422084 एम)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार देस राज	(जे सी-422121 पी)	01 अप्रैल 2016
नायब सूबेदार जितेन्द्र सिंह	(जे सी-421732 एक्स)	16 मई 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अप्रैल 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार उमेश चन्द्र	(जे सी-421979 वाई)	07 मई 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अप्रैल 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार चन्द्रपाल सिंह	(जे सी-422059 एन)	14 मई 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार लोकेन्द्र सिंह	(जे सी-421594 एफ)	01 मई 2016
नायब सूबेदार संजय कुमार पाण्डेय	(जे सी-421764 ए)	02 मई 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार सुखबीर सिंह	(जे सी-421923 एम)	02 मई 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार गोपाल कृष्ण पिल्लै	(जे सी-422318 एल)	01 मई 2016
नायब सूबेदार श्री कुमार एस	(जे सी-422509 ए)	23 मई 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार रामकरण सिंह बघेल	(जे सी-421632 एम)	06 जून 2016 •
• (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2016 से दी जाती है।)		
नायब सूबेदार (एस के टी) मोरे बालादेव बसन्तराव	(जे सी-421996 वाई)	01 मई 2016

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दिनेश भट्ट	(14922098 एल अब जे सी-422883 एच)	01 अप्रैल 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार शिव राम सिंह	(14919466 के अब जे सी-422884 एल)	30 अप्रैल 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार श्रीनिवासराव साप्पा	(14920731 एफ अब जे सी-422885 एन)	30 अप्रैल 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 जनवरी 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार के राजामनी	(14921669 एम अब जे सी-422886 डब्ल्यू)	01 मार्च 2016
हवलदार मिजानुर रहमान	(14920121 पी अब जे सी-422887 वाई)	02 अप्रैल 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार तरसेसैम लाल	(14919088 डब्ल्यू अब जे सी-422888 एफ)	01 अप्रैल 2016
हवलदार वेद पाल	(14922163 ए अब जे सी-422889 के)	01 अप्रैल 2016
हवलदार सोमवीर	(14936903 पी अब जे सी-422890 वाई)	06 जून 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2016 से दी जाती है।)		

हवलदार कमलेश कुमार पाठक	(14920185 ए अब जे सी-422891 एफ)	02 मई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार दिलिप कुमार रॉय	(14919937 एम अब जे सी-422892 के)	02 मई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार राजेन्द्र प्रताप	(14918921 पी अब जे सी-422893 एम)	01 मई 2016
हवलदार ए जफर अली	(14921026 पी अब जे सी-422894 पी)	16 मई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार गुरदीप कुमार	(14921926 वाई अब जे सी-422895 एक्स)	03 मई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार रणजीत कुमार राणा	(14919063 के अब जे सी-422896 ए)	03 मई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार लोक बहादुर नेपाली	(14920198 एक्स अब जे सी-422897 एच)	01 मई 2016
हवलदार टोंडाले भीमराव मारुति	(14921592 पी अब जे सी-422898 एल)	02 मई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार मोरवाले अनिल तुकाराम	(14921597 एन अब जे सी-422899 एन)	02 मई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार राज कुमार	(14921047 एल अब जे सी-422900 एक्स)	02 मई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार (एस के टी) शोकत अली	(14926979 एफ अब जे सी-422901 ए)	01 मई 2016
हवलदार कालू राम	(14922043 एफ अब जे सी-422902 एच)	22 जून 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार टेक बहादुर आले	(14919026 डब्ल्यू अब जे सी-422903 एल)	01 जून 2016
हवलदार एस सुन्दरराज	(14918899 पी अब जे सी-422904 एन)	01 जून 2016
हवलदार रणजीत आदित्य	(14919649 ए अब जे सी-422905 डब्ल्यू)	01 जून 2016
हवलदार अशोक कुमार राय	(14918933 के अब जे सी-422906 वाई)	01 जून 2016
हवलदार सेंथिल कुमार के	(14921022 वाई अब जे सी-422907 एफ)	01 जून 2016
हवलदार विरेन्द्र सिंह राणा	(14922484 एक्स अब जे सी-422908 के)	01 जून 2016
हवलदार जरनैल सिंह	(14920024 एक्स अब जे सी-422909 एम)	01 जून 2016
हवलदार अनिसुर रोहामान	(14921182 वाई अब जे सी-422910 एफ)	01 जून 2016
हवलदार एस मुआनमांग पाइते	(14922964 एफ अब जे सी-422911 के)	01 जून 2016
हवलदार अशोक कुमार विजारनिया	(14923013 डब्ल्यू अब जे सी-422912 एम)	01 जून 2016
हवलदार सुनिल बसनेट	(14921813 डब्ल्यू अब जे सी-422913 पी)	02 जून 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार धरमेन्द्र कुमार यादव	(14921688 एक्स अब जे सी-422914 एक्स)	01 जून 2016
हवलदार यशपाल सिंह	(14921529 ए अब जे सी-422915 ए)	01 जून 2016
हवलदार सुरेश प्रसाद खटैत	(14921731 एन अब जे सी-422916 एच)	01 जून 2016

हवलदार पदमा लोचन विशोई	(14921612 एक्स अब जे सी-422917 एल)	01 जून 2016
हवलदार अजिथ कुमार के कुन्नामबाथ	(14922614 पी अब जे सी-422918 एन)	01 जून 2016
हवलदार मुन्ना कुमार	(14921195 डब्ल्यू अब जे सी-422919 डब्ल्यू)	01 जून 2016
हवलदार राजेश के	(14921321 एक्स अब जे सी-422921 एन)	23 जुलाई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार अनिल कुमार पाण्डे	(14922508 डब्ल्यू अब जे सी-422922 डब्ल्यू)	23 जुलाई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार देवेन्द्र नाथ महाराणा	(14921140 एम अब जे सी-422923 वाई)	23 जुलाई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार बसन्त कुमार सिंह	(14921509 एम अब जे सी-422924 एफ)	23 जुलाई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार स्वरूप कुमार मण्डल	(14918903 एम अब जे सी-422925 के)	01 जुलाई 2016
हवलदार कृष्णामनी तिवारी	(14918943 एन अब जे सी-422926 एम)	01 जुलाई 2016
हवलदार अतिअर रहमान	(14918962 वाई अब जे सी-422927 पी)	01 जुलाई 2016
हवलदार लिंगा राजु ए वी	(14919699 एल अब जे सी-422928 एक्स)	01 जुलाई 2016
हवलदार सूरज भूषण चौधरी	(14921728 एन अब जे सी-422929 ए)	01 जुलाई 2016
हवलदार दिवाकर तिवारी	(14921752 के अब जे सी-422930 पी)	01 जुलाई 2016
हवलदार बाबू लाल	(14919668 एल अब जे सी-422931 एक्स)	30 जुलाई 2016 •
• (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जुलाई 2016 से दी जाती है।)		
हवलदार (लिपिक) यादव जयप्रकाश	(14924274 डब्ल्यू के अब जे सी-422932 ए)	01 अगस्त 2016
हवलदार (लिपिक) सतेन्द्र कुमार	(14924287 एन के अब जे सी-422933 एच)	01 अगस्त 2016

नायब सूबेदार धर्म शिक्षक के रैंक में

मोहन लाल व्यास	(जे सी-422860 एफ)	25 जून 2016
सुखेन्द्रा कुमार पाण्डे	(जे सी-422290 एल)	01 अक्टूबर 2016

नियमित सेना

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार	तारा चन्द्र	(जेसी-244262ए)	01 जून 2016
रिसालदार	मारुती घालागु तारले	(जेसी-243851के)	01 मई 2016
रिसालदार	कुलदीप सिंह	(जेसी-244323एम)	01 जुलाई 2016
रिसालदार	किशन सिंह	(जेसी-244122एन)	01 अगस्त 2016
रिसालदार	सुनील कुमार के	(जेसी-243803के)	01 सितम्बर 2016
रिसालदार	एम चन्द्रा सेकारन	(जेसी-244441ए)	01 मई 2016
रिसालदार	तेजीन्दर सिंह	(जेसी-244113एम)	01 सितम्बर 2016
रिसालदार	राजन तालेकर	(जेसी-244474एल)	01 मई 2016

स्थायी रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार	धर्मवीर सिंह	(जेसी 245348एल)	01 अगस्त 2016
नायब रिसालदार	मनबीर सिंह	(जेसी 245345एक्स)	*05 अगस्त 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	थवदम ओपेन्द्र सिंह	(जेसी 244569एल)	*10 अप्रैल 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2015 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	योगेन्द्र सिंह	(जेसी 245607एच)	01 जून 2016
नायब रिसालदार	राजबीर सिंह	(जेसी 245608एल)	*06 जुलाई 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	अनिल दत्त शर्मा	(जेसी 245227के)	01 जुलाई 2016
नायब रिसालदार	ओम प्रकाश	(जेस 245870एन)	01 जुलाई 2016
नायब रिसालदार	प्रभु राम जाट	(जेसी 244874एक्स)	*21 जुलाई 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	भाग सिंह	(जेसी 245036पी)	01 जुलाई 2016
नायब रिसालदार	राकेश कुमार	(जेसी 245136ए)	01 जुलाई 2016
नायब रिसालदार	छबोलु कसान्ना	(जेसी 244790के)	*24 मई 2016
*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मई 2016 से दी जाती है)			
नायब रिसालदार	पवन कुमार	(जेसी 245562एन)	01 मार्च 2016
नायब रिसालदार	अरुन कुमार	(जेसी 245016एफ)	01 दिसम्बर 2015

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार	बलवीर सिंह	(सं. 15462075ए अब जेसी-247207पी)	01 अगस्त 2016
दफादार	विजय सिंह	(सं. 15463878वाई अब जेसी-247196एन)	01 सितम्बर 2016
दफादार	सुल्तान सिंह	(सं. 15464717एच अब जेसी-247197डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2016
दफादार	सतवीर सिंह	(सं. 15466268एक्स अब जेसी-247203वाई)	01 अगस्त 2016
दफादार	सुरिन्दर सिंह	(सं. 15466784एम अब जेसी-247189एक्स)	01 सितम्बर 2016
दफादार	जोतीबा केदारी	(सं. 15467660के अब जेसी-247204एफ)	01 सितम्बर 2016
दफादार	मदन लाल	(सं. 15468390एम अब जेसी-247234वाई)	01 सितम्बर 2016
दफादार	अवदेश कुमार	(सं. 15468502एफ अब जेसी-247211एक्स)	01 सितम्बर 2016
दफादार/क्लर्क	जेम्स बेनेडीक्ट	(सं. 15470267एम अब जेसी-247201एन)	01 सितम्बर 2016
दफादार	एम मरीमुथु	(सं. 15470453एच अब जेसी-247195एल)	01 सितम्बर 2016
दफादार/क्लर्क	जी वी नरायना	(सं. 15470525एफ अब जेसी-247200एल)	01 सितम्बर 2016
दफादार	मोहिन्दर पाल सिंह	(सं. 15471457एल अब जेसी-247202डब्ल्यू)	01 अगस्त 2016
दफादार	सिवाजी एस	(सं. 15471539एन अब जेसी-247199एफ)	01 सितम्बर 2016

संजय गुप्ता
अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 254, दिनांक 7 नवम्बर 2016—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग

(लै० के पद पर दिनांक 16 मार्च 2013 से)

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेना के अन्तर्गत उपशीर्षक अल्पकालीन सेवा आयोग लेफ्टिनेंट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 17 मई 2014 को एस एस सी (टैक)—38 पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती हैं।

के लिए	राठोड लक्ष्मण रामूलू	एस एस— 46400एल	ईएमई
पढ़ें	लक्ष्मण रामूलू राठोड	एस एस— 46400एल	ईएमई

अभिषेक तिवारी
मेजर
ए एम एस 8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 17th December 2016

(ARMY BRANCH)

No. 249, dated 31st October 2016—The President is pleased to make the following appointments :-

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

TO BE LT

The under mentioned 44 officers of SSC (Tech)-44 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission have been confirmed for a period of 10 years wef 12 Mar 2016, under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Men-Tech). They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 15 Mar 2015 under SAI 1/S/94 as amended:-

SS No	Name	Arm/ Service	On Probation
SS-48622Y	HITESH KHARAYAT	INF	06-Apr-15
SS-48624K	NITIN RAJ SINGH	ENGRS	06-Apr-15
SS-48626P	SANJIVARADDI BALAPPA B PATIL	SIGS	07-Oct-14
SS-48627X	JAGDISH SINGH DHALIWAL	ENGRS	06-Apr-15
SS-48628A	PARVINDER SINGH	ASC	07-Oct-14
SS-48630X	NIKHIL KUMAR	INF	06-Apr-15
SS-48631A	PRAMOD KUMAR	EME	06-Apr-15
SS-48632H	GUNTIREDDY BHAGYARAJ	EME	06-Apr-15
SS-48633L	AKSHAY SINGH	AC	07-Oct-14
SS-48634N	SATISH G	EME	06-Apr-15
SS-48638K	ANKITH K	ARTY	06-Apr-15
SS-48639M	SREENATH S	SIGS	07-Oct-14
SS-48643P	AJAY KUMAR V	ENGRS	06-Apr-15
SS-48644X	SAURABH LAKHANPAL	ENGRS	06-Apr-15
SS-48645A	SIDDHARTH MANI	SIGS	06-Apr-15
SS-48648N	SATISH GUPTA	AVN	06-Apr-15
SS-48649W	JAIPAL	AOC	06-Apr-15
SS-48650L	RATHOD RUPESH MANIKRAO	SIGS	07-Apr-14
SS-48654F	AMIT KUMAR	ENGRS	06-Apr-15
SS-48655K	SIDDHARTH MISRA	ARTY	06-Apr-15
SS-48656M	BENJAMIN JEFFREY D	INF	06-Apr-15

SS No	Name	Arm/ Service	On Probation
SS-48657P	SANDEEP TIWARI	ENGRS	06-Apr-15
SS-48658X	AKSHAY PRATAP SINGH	ENGRS	06-Apr-15
SS-48659A	PRANAV SHEORAN	ARTY	06-Apr-15
SS-48662A	DESH DEEPAK TIWARI	INF	06-Apr-15
SS-48663H	NANDA GOPAL V	INF	06-Apr-15
SS-48668F	SAWAN VERMA	MECH	06-Apr-15
SS-48671F	S ANURAG MOHAN	INT	06-Apr-15
SS-48672K	ABHISHEK NEHRA	INF	06-Apr-15
SS-48675X	SAMIT RANA	INF	06-Apr-15
SS-48677H	RADHESH R	EME	06-Apr-15
SS-48679N	JERRY BERNAD D	AOC	06-Apr-15
SS-48681L	RAHUL SIVANATHAN	AVN	06-Apr-15
SS-48682N	VISHAL S NAIR	INF	07-Oct-14
SS-48686K	AMBATT JOSEPH JOHNSON	ENGRS	06-Apr-15
SS-48687M	WANGKHEM HEMCHAND MEETEI	AAD	06-Apr-15
SS-48688P	AKSHAY SREEDEV	AVN	06-Apr-15
SS-48689X	JOHNSON VARGHESE KOZHICKOTHICAL	ARTY	06-Apr-15
SS-48690M	MAYANK KAUSHIK	EME	06-Apr-15
SS-48691P	PRATEEK RANA	EME	06-Apr-15
SS-48692X	VIVEK G	ASC	06-Apr-15
SS-48693A	GURJINDER SINGH	ENGRS	06-Apr-15
SS-48694H	DISHANT KATARIA	SIGS	06-Apr-15
SS-48696N	VIBHOR DWIVEDI	ARTY	06-Apr-15

The under-mentioned one officer of SSCW(Tech)-12 Course was granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against her name in the rank of Lt under the provision of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs (Women-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation has been confirmed for a period of 10 years wef 13 Sep 2014. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 15 Sep 2013 under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) :-

AKANKSHA ARORA (SS-47745K) SIGS (date of SSC on probation-07 Oct 13) with the seniority below SONIA SANGWAN (SS 47742L) ASC.

The under mentioned one officer of SSC(NT)-96 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 14 Sep 2013. The officer is granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 14 Sep 2013 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter no B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06: -

R RAVI SHANKAR (SS-46723N) INF with the seniority above A RAJESH KUMAR (SS-46724W) ARTY.

The under mentioned 68 officers of SSC(NT)-101 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 12 Mar 2016. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 12 Mar 2016 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter no B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 :-

SS No	Name	Arms/ Services
SS-48514P	PARIKSHIT BAWA	AC
SS-48517H	ARUN KUMAR	INF
SS-48520H	RANJEET KUMAR	ARTY
SS-48521L	MANOJ S	INF
SS-48522N	SHAH MUNEEB RAZA	JAG
SS-48524Y	RAGHU DUTT KAUSHIK	AAD
SS-48526K	PRASHANT KUMAR SHARMA	JAG
SS-48527M	RAKESH KRISHNA N	ARTY
SS-48528P	TEEGAVARAPU SREE TEJA BHARADWAJ	SIGS
SS-48529X	YUDHVIR SINGH	MECH
SS-48530M	ANIMESH NEWTON	ASC
SS-48532X	THAKRE AKASH ASHOK	ENGRS
SS-48535L	RISHI RAJ DEV	EME
SS-48537W	ABASAHEB VILAS DEOKAR	ENGRS
SS-48538Y	CHITTRANJAN BALIAR SINGH	ASC
SS-48539F	AISHWARY SHAH	INF
SS-48540W	ASHIM SHARMA	ARTY
SS-48541Y	VISHAL	ARTY
SS-48544M	BHATI PRADYUMANSINH BHARATSINH	INF
SS-48545P	PARAMVEER MATTU	AOC
SS-48546X	BALVEER SINGH RATHORE	INF
SS-48547A	AMOL DHAYTADAK	AOC
SS-48550A	RUSTAM SINGH THAKUR	JAG
SS-48552L	ANIL	AOC
SS-48553N	YASHOVARDHAN	ARTY
SS-48554W	AMIT KUMAR DAHIYA	INF
SS-48555Y	SHIRVAIKAR ANEESH PARAG	INF
SS-48557K	BHATT PRANAV JITENDRA	ASC
SS-48558M	DIGVIJAYSINGH	INF
SS-48559P	FULSUNDAR KIRAN BABAJI	EME
SS-48561M	ABHAY NIGAM	AAD
SS-48562P	KRISHNA GOPINATH SHENOY	MECH

SS No	Name	Arms/ Services
SS-48563X	PUNEET SHARMA	ARTY
SS-48565H	GURDEEP SINGH	ARTY
SS-48566L	KISHORE A	INF
SS-48568W	WIWANGBOU WIJUNAMAI	INF
SS-48569Y	SRIVATHSAN K	INF
SS-48570N	NITESH KRISHNA KELASKAR	AVN
SS-48572Y	PRATIK KUMAR SINGH	ARTY
SS-48573F	ADITYA RANA	EME
SS-48577X	SHIRKE ANKIT RAJAN	ARTY
SS-48581A	SASHANK THAPA	INF
SS-48582H	MADHVENDER SINGH CHAUHAN	JAG
SS-48583L	ANUPAM VASHISHTHA	AAD
SS-48585W	PRAKASH SINGH THAKUR	AOC
SS-48588K	PARMINDER SINGH	ENGRS
SS-48589M	KHOT AJINKYAGURU TUKARAM	SIGS
SS-48590F	MAYANK RATTI	EME
SS-48591K	MIHIR POKHARIYAL	INF
SS-48592M	ARPAN PANDEY	INF
SS-48594X	ABHIK CHAUDHURY	ARTY
SS-48596H	ANSHU JAGMOHAN ARUNKUMAR	AAD
SS-48597L	RISHABH PRIYADARSHI	ASC
SS-48599W	HARSHAVARDHANAA SINGH HOODA	AC
SS-48600A	SHREY KOTNALA	INF
SS-48601H	VINAY SHARMA	SIGS
SS-48602L	ADHIRAJ RANA	INF
SS-48603N	BHOPESH KUMAR SHARMA	ARTY
SS-48604W	ARCOT SAI DIKSHIT	AVN
SS-48606F	SAMEER RAO	INF
SS-48607K	JYOTI PRAKASH SHREYAS	INF
SS-48608M	ANUJ SABHARWAL	JAG
SS-48609P	DAVID CYRIL BABU	ARTY
SS-48611M	PARTH DAYAL	INF
SS-48613X	KAMALDEEP MALIK	JAG
SS-48614A	GURIQBAL SINGH	MECH

SS No	Name	Arms/ Services
SS-48618W	SAHDEV SINGH RATHORE	ARTY
SS-48619Y	MIR ALI HUSSAIN	AC

The under mentioned two officers of SSC(Tech)-39 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs (Men-Tech) Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission have been confirmed for a period of 10 years wef 14 Sep 2013. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 16 Sep 2012 under SAI 1/S/94 as amended:-

RATNAKAR PANDEY(SS-46921Y) AOC (date of SSC on probation-08 Oct 12) with the seniority below VIKAS KUMAR (SS-46920W) INF, MANISH KUMAR (SS-46944A) ARTY (date of SSC on probation-08 Oct 12) with the seniority below VARUN JOSHI (SS-46942P) INF.

The under mentioned two officers of SSC (Tech)-42 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 14 Mar 2015, under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Men-Tech). They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 16 Mar 2014 under SAI 1/S/94 as amended:-

KUMAR ABHISHEK SINGH (SS-47944M) SIGS (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority above S VIGNESH (SS-47945P) ENGRS and RANDEEP SINGH (SS-47970N) INF (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority below PRAMESH SINGH (SS-47969Y) INF.

ABHISHEK TEWARY
Maj
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 250, dated 1st November 2016—The President is pleased to make the following promotion: -

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to Lt Gen (& equivalent)

Bipin Puri - 01-04-2016
(MR-03993P)

Pawan Kapoor, VSM - 10-06-2016 with notional seniority without effect on pay &
(MR-04049N) pension from 01-06-2016.

Air Cmde (& equivalent) to be AVM (& equivalent)

RS Vasantha Kumar - 01-06-15, with notional seniority without effect on pay and
(MR-05437X) (AF-34393L) pension from 01-05-15.

Gp Capt (& equivalent) to be Air Cmde (& equivalent)

Aditya Bhargava - 11-05-15, with notional seniority without effect on pay &
(MR-05295L)(AF-18184-K) pension from 03-02-15.

H Sahni - 12-05-15, with notional seniority without effect on pay &
(MR-05331L)(AF-18192-H) pension from 30-04-15.

B Nandi, VSM - 12-05-15, with notional seniority without effect on pay &
(MR-05332N)(AF-18188-F) pension from 01-05-15.

R Vaidya (MR-05333W)(AF-18251-K)	-	01-06-15, with notional seniority without effect on pay & pension from 02-05-15.
RM Sharma (MR-05710F)(AF-18851-N)	-	01-10-15, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-10-15.
Ashutosh Sharma (MR-05324P)(AF-17987-K)	-	30-12-14, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-11-14.
RK Choudhury (MR-05974H)(AF-18384-F)	-	30-12-14, with notional seniority without effect on pay & pension from 02-11-14.
A Alam (MR-05328L)(AF-18190-A)	-	01-02-15, with notional seniority without effect on pay & pension from 02-01-15.
N Taneja (MR-05329N)(AF-18187-A)	-	01-02-15, with notional seniority without effect on pay & pension from 08-01-15.
SS Nair, VSM (MR-05977W)(AF-18197-G)	-	21-07-15, with notional seniority without effect on pay & pension from 04-06-15.

Lt Col (& equiv) to be Col (& equiv)

D Banerjee (MR-07386N)	-	27-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-01-15
Sonali Passi Verma (MR-06624H)	-	20-02-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-02-15

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
(AMC-NON TECH OFFRS)

Lt Col to be Col (by selection)

Y Sugumar P (NTR-16636L)	-	01-05-2016
PS Reddy (NTR-16637N)	-	01-06-2016
Surinder Singh (NTR-16609F)	-	01-04-16, with notional seniority without effect on pay and pension from 01-09-15
Birender Singh (NTR-16626F)	-	07-09-15, with notional seniority without effect on pay and pension from 02-09-15
YP Singh (NTR-16627K)	-	01-12-15
LC Katoch (NTR-16632P)	-	01-01-16

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
LT COL TO COLONEL (TIME SCALE)

MR-07449L	LT COL	SUBHASH GAUTAM	18 APR 2016
-----------	--------	----------------	-------------

WG CDR TO GP CAPT (TIME SCALE)

MR-06708W (AF-21681-B)	WG CDR	K SUGANDHI	11 DEC 2015
MR-6811F (AF-21499-B)	WG CDR	PANKAJ PANT	30 MAR 2015

RK RANYAL
Air Vice Mshl
Addl DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 251, dated 21st November 2016—The President is pleased to make the promotion of under mentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names: -

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

LT COL TO COLONEL (TIME SCALE)

MR-06725W	LT COL	ACS BADHWAR	06 JUL 2016
MR-06248A	LT COL	KANNAN NARAYANAN	12 DEC 2015
MR-07149K	LT COL	A BHARGAVA	14 MAY 2016
MR-06432L	LT COL	HEMLATHA KAKKAR	03 JUN 2016

SURG CDR TO SURG CAPT (TIME SCALE)

MR-06322W (75515-Z)	SURG CDR	CS SAXENA	24 JUL 2016
---------------------	----------	-----------	-------------

B SRIDHAR
Brig
Dy DGAFMS (HR)

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

No. 252, dated 3rd November 2016—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officer with effect from the date mentioned against the each name:-

LT COL (SELECT) TO COL

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
COL S JAYALAKSHMI	NR-18624P	10 JUN 2016
COL S SURIYAPRABHA	NR-18280F	13 JUN 2016
COL I DELOS FLORA	NR-18293Y	15 JUN 2016
COL R SARASWATHI	NR-18313F	21 JUN 2016

LT COL (TS) TO LT COL (SELECT)

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
Lt Col (S) SAROJ BALA	NR-19021L	11 Jul 2016
Lt Col (S) VIJAYA LAKSHMI V M	NR-18827Y	11 Jul 2016
Lt Col (S) ANIE P Y	NR-18917A	11 Jul 2016
Lt Col (S) G AUTHI KUMARI	NR-18939Y	11 Jul 2016
Lt Col (S) KAMALAMMA P G	NR-18469Y	14 Sep 2015
Lt Col (S) SHERLY K I	NR-18781F	14 Sep 2015

MAJOR TO LT COL (TS)

RANK & NAME		PERS NO	DATE OF PROMOTION
LT COL(TS)	N MODOLI	NR-14841N	19/12/1991

SUSHILA SHAHI
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 253, dated 4th November 2016—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

TO BE SUBEDAR MAJOR

Sub	Lallu Singh	JC-403913A	01 Apr 2016
Sub	Indra Pal Chaturvedi	JC-403923K	01 May 2016
Sub	Awadesh Kumar	JC-403925P	01 May 2016
Sub	Ramjan Khan	JC-404001N	01 Jun 2016

TO BE SUBEDAR MAJOR (CLK SD)

Sub (Clk SD)	Shyam Lal	JC-404180Y	01 Jun 2016
-----------------	-----------	------------	-------------

TO BE SUBEDAR MAJOR (RT)

Sub (RT)	Mridul Kumar	JC-402002X	01 May 2016
----------	--------------	------------	-------------

TO BE SUBEDAR

Nb Sub	Raghuveer Singh Shekhawat	JC-405048L	01 Apr 2016
Nb Sub	Shanker Lal Saini	JC-404799A	01 Apr 2016
Nb Sub	Ashok Chandra Joshi	JC-404790L	01 Apr 2016
Nb Sub	Dev Raj Verma	JC-404794F	01 Apr 2016
Nb Sub	Janam Singh	JC-404814K	01 Apr 2016
Nb Sub	Diwan Singh	JC-404979H	02 Apr 2016*

*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Apr 2016.

Nb Sub	Shanker Datt Joshi	JC-404987F	01 Apr 2016
Nb Sub	Mohan Chand	JC-405025K	10 Apr 2016*

*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Apr 2016.

Nb Sub	Ranchhor Singh Bahdoria	JC-404969Y	11 Apr 2016*
--------	-------------------------	------------	--------------

*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Apr 2016.

Nb Sub	Pujer Ramesh Lagamappa	JC-404567F	01 Apr 2016
Nb Sub	Udham Singh	JC-404802A	01 Jun 2016
Nb Sub	Netar Pal	JC-404906W	16 Jun 2016*

*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jun 2016.

Nb Sub	S Uttam Kumar Singha	JC-404996H	01 May 2016
--------	----------------------	------------	-------------

Nb Sub	Satish Kumar Chettri	JC-405092P	01 May 2016
Nb Sub	SR Rockson Anal	JC-405119F	01 May 2016
Nb Sub	Naresh Kumar	JC-405129L	01 May 2016
Nb Sub	Lokesh Kumar	JC-405055F	01 May 2016
Nb Sub	Ram Dulare	JC-405082L	01 May 2016
Nb Sub	Ram Janak Singh	JC-405083N	01 Jun 2016
Nb Sub	Shyam Kinkar Singh	JC-405085Y	01 Jun 2016
Nb Sub	Ramesh Chandra Verma	JC-405101L	01 Jun 2016
Nb Sub	Hansraj Yadav	JC-405132L	01 Jun 2016
Nb Sub	Dinesh Chandra	JC-405157X	01 Jun 2016
Nb Sub	Atul Borah	JC-405160X	01 Jun 2016
Nb Sub	Diwan Singh	JC-405061P	02 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 May 2016.			
Nb Sub	Kishore Singh Bisht	JC-405118Y	02 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 May 2016.			
Nb Sub	Tek Chand	JC-405125P	01 May 2016
Nb Sub	Chand Singh	JC-405194L	01 Apr 2016
Nb Sub	MS Biju Kumar	JC-404820X	01 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 15 Mar 2016.			
Nb Sub	Gabar Singh	JC-404711L	22 Apr 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 05 Feb 2016.			
Nb Sub	Devendra Singh Bist	JC-404716K	22 Apr 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 14 Feb 2016.			
Nb Sub	Shailendra Bahadur Singh	JC-404744W	27 Apr 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 22 Mar 2016.			
Nb Sub	Gajendr Bahadur Singh	JC-404745Y	01 May 2016
Nb Sub	Shakur Kathat	JC-405200N	01 May 2016
Nb Sub	Ramesh Chand	JC-405224X	01 May 2016
Nb Sub	Azmat Beg	JC-404805H	02 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 17 Oct 2015.			
Nb Sub	Ravinder Singh	JC-404807N	02 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 10 Apr 2016.			
Nb Sub	Mahendra Singh	JC-404961M	30 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 10 Apr 2016.			
Nb Sub	Ajay Kumar Pandey	JC-404587P	09 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 10 Apr 2016.			
Nb Sub	Ranjit Gogoi	JC-404836H	14 Jun 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jun 2016.			
Nb Sub	Indra Mohan Kumar	JC-404837L	01 Jun 2016

Nb Sub	Satyendra Nath Ray	JC-405147N	23 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 May 2016.			
Nb Sub	Dinesh Chandra	JC-405202Y	15 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 May 2016.			
Nb Sub	Om Prakash	JC-405203F	14 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 May 2016.			
Nb Sub	Ram Kishore Singh Khenwar	JC-405016F	25 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 May 2016.			
Nb Sub	Birendra Yadava	JC-405032A	10 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 May 2016.			
Nb Sub	Ram Sharan	JC-405304P	06 Jun 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jun 2016.			
Nb Sub	G Aji Kumar	JC-405322X	01 Jun 2016
Nb Sub	Krishnan S	JC-404729F	19 May 2016*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 15 Apr 2016.			
Nb Sub	Satyvan Singh	JC-405277W	01 Jun 2016
Nb Sub	Mani Ram	JC-405255X	01 Jun 2016
Nb Sub	Pushpendra Kumar Nehra	JC-404948H	01 Jun 2016

TO BE SUBEDAR (CLERK SD)

Nb Sub	Suresh Kumar	JC-405124M	01 Jun 2016
--------	--------------	------------	-------------

TO BE NAIB SUBEDAR

Hav	Patil Sarjerao Hari	13697097P	now	JC-405508F	01 Apr 16
Hav	Sher Singh	13695978P	now	JC-405551H	01 Jun 16
Hav	Naresh Kumar	13696108K	now	JC-405552L	01 Jun 16
Hav	Narayanpure Bharat Baburao	13693300H	now	JC-405532X	01 Jun 16
Hav	Randhir Singh	13693281H	now	JC-405521L	01 May 16
Hav	Chandra Singh	13693348W	now	JC-405547A	01 May 16
Hav	Anil CH Bora	13693375A	now	JC-405522N	01 May 16
Hav	Thenkholal Lungdim	13698622M	now	JC-405523W	01 May 16
Hav	Th Manggi Singha	13694562L	now	JC-405509K	01 May 16
Hav	Shakti Singh	13695265K	now	JC-405510Y	01 May 16
Hav	Sunil Kumar Singh	13695335X	now	JC-405512K	01 May 16
Hav	Om Prakash Singh Yadav	13695364M	now	JC-405511F	01 May 16
Hav	Rajjan Lal	13695577A	now	JC-405536N	07 Jun 16*

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jun 2016.

Hav	Narendra Singh	13695653F	now	JC-405537W	01 Jun 16
Hav	Sri Vinod Kumar Tikare	13695686F	now	JC-405538Y	01 Jun 16
Hav	Brij Raj Chouhan	13695798M	now	JC-405539F	01 Jun 16
Hav	Suman Pal Singh	13695961F	now	JC-405540W	01 Jun 16
Hav	Lokesh Kumar Sharma	13696165L	now	JC-405541Y	01 Jun 16
Hav	Anil Kumar	13694444X	now	JC-405507Y	05 May 16*

*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2016.

Hav	Ran Singh	13694572P	now	JC-405513M	01 May 16
Hav	Mahesh Chandra	13695074P	now	JC-405514P	01 May 16
Hav	Shiv Murat Yadava	13696911H	now	JC-405515X	02 May 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 17 Oct 2015.					
Hav	Dharminder Singh	13694082F	now	JC-405516A	02 May 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 10 Apr 2016.					
Hav	Sudharshan Sharma	13697476L	now	JC-405517H	02 May 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 10 Apr 2016.					
Hav	Ashok Singh	13695801F	now	JC-405518L	02 May 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 10 Apr 2016.					
Hav	Suresh Pal	13695296K	now	JC-405524Y	06 May 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 27 Mar 2016.					
Hav	Kandan M	13694405Y	now	JC-405520H	19 May 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 15 Apr 2016.					
Hav	Lal Ji Thakur	13697110N	now	JC-405545P	12 May 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2016.					
Hav	Harish Kumar	13696790M	now	JC-405519N	12 May 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 13 Apr 2016.					
Hav	Laxmi Narayan	13696979K	now	JC-405548H	20 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 May 2016.					
Hav	Parveen Kumar	13695231W	now	JC-405533A	01 Jun 16
Hav	Gonde Oraon	13694246M	now	JC-405525F	04 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 22 Apr 2016.					
Hav	Tribhuwan Singh	13694258F	now	JC-405526K	04 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 May 2016.					
Hav	Fakirappa Chougule	13695151Y	now	JC-405527M	04 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 May 2016.					
Hav	Hardat Singh	13695190X	now	JC-405528P	04 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 May 2016.					
Hav	Jai Singh	13695314F	now	JC-405529X	04 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 May 2016.					
Hav	Rajesh Pal	13695411Y	now	JC-405530M	04 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 May 2016.					
Hav	Zala Rajendra Sinh Takhat Sinh	13695420A	now	JC-405534H	04 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jun 2016.					
Hav	Munna Lal	13696632X	now	JC-405535L	04 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 Jun 2016.					
Hav	Manoj Singh Sikarwar	13694655A	now	JC-405542F	14 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 26 Mar 2016.					

Hav	Manoj Pandey	13696036L	now	JC-405543K	14 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 26 Mar 2016.					
Hav	Subodh Kumar	13696082A	now	JC-405544M	20 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 26 Mar 2016.					
Hav	Vinay Kumar Chy	13696093M	now	JC-405546X	14 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 01 May 2016.					
Hav	Vinu P	13695142X	now	JC-405549L	29 Jun 16*
*Gtd Seniority in the rank of Naib Subedar without effect on pay and allces wef 15 May 2016.					

TO BE NAIB SUBEDAR (CLERK SD)

Hav	Arun Sarkar	13694580N	now	JC-405531P	01 Jun 16
-----	-------------	-----------	-----	------------	-----------

(ClkSD)

REGULAR ARMY

The Mechanised Infantry Regiment

To be Substantive Subedar Major (GD)

SUB LALAN KUMAR	(JC-421303W)	04 th Jan 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Maj wef 01 st Jan 2016 without effect on pay and allowances)		
SUB SRINIVASAN S	(JC-421424X)	18 th Apr 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Maj wef 01 st Jan 2016 without effect on pay and allowances)		
SUB UMESH KUMAR BAL	(JC-421122L)	01 st Apr 2016
SUB OMKAR SINGH	(JC-421128M)	01 st Apr 2016
SUB SHYAM PAL	(JC-421261P)	01 st Apr 2016
SUB (SKT) DAYAL RAM CHOUHAN	(JC-421431N)	04 th May 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Maj wef 01 st May 2016 without effect on pay and allowances)		
SUB CLK (SD) RAVI PRASAD SHARMA	(JC-421598X)	01 st Aug 2016

To be Substantive Subedar (GD)

NB SUB RASAMALA KRISHANA MURTHY	(JC-421892X)	01 st Jan 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 29 th Oct 2015 without effect on pay and allowances)		
NB SUB KRISHAN KUMAR	(JC-421810K)	01 st Mar 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Nov 2015 without effect on pay and allowances)		
NB SUB ASRAPH MANDAL	(JC-422316A)	01 st Mar 2016
NB SUB VINOD KUMAR	(JC-422399W)	23 rd May 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st Mar 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB GANESH KUMAR MANDAL	(JC-421746X)	01 st Apr 2016
NB SUB PARAS YADAV	(JC-421939X)	01 st Apr 2016
NB SUB CHOUL BAHADUR THAPA	(JC-422084M)	01 st Apr 2016
NB SUB DESH RAJ	(JC-422121P)	01 st Apr 2016
NB SUB JITENDRA SINGH	(JC-421732X)	16 th May 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 06 th Apr 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB UMESH CHANDRA	(JC-421979Y)	07 th May 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 18 th Apr 2016 without effect on pay and allowances)		

NB SUB CHANDRAPAL SINGH	(JC-422059N)	14 th May 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 24 th Apr 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB LOKENDRA SINGH	(JC-421594F)	01 st May 2016
NB SUB SANJAI KUMAR PANDEY	(JC-421764A)	02 nd May 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st May 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB SUKHBIR SINGH	(JC-421923M)	02 nd May 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st May 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB GOPAL KRISAN PILLAI	(JC-422318L)	01 st May 2016
NB SUB SREE KUMAR S	(JC-422509A)	23 rd May 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01 st May 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB RAMKRAN SINGH BAGHEL	(JC-421632M)	06 th Jun 2016*
*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 24 th May 2016 without effect on pay and allowances)		
NB SUB (SKT) MORE BALADEO VASANTRAO	(JC-421996Y)	01 st May 2016
To be Naib Subedar		
HAV DINESH BHATT	(14922098L Now JC-422883H)	01 st Apr 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jan 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SHIV RAM SINGH	(14919466K Now JC-422884L)	30 th Apr 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jan 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SRINIVASARAO SAPPA	(14920731F Now JC-422885N)	30 th Apr 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 08 Jan 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV K RAJAMANI	(14921669M Now JC-422886W)	01 st Mar 2016
HAV MIZANUR RAHAMAN	(14920121P Now JC-422887Y)	02 nd Apr 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV TARSESAIM LAL	(14919088W Now JC-422888F)	01 st Apr 2016
HAV VED PAL	(14922163A Now JC-422889K)	01 st Apr 2016
HAV SOMBIR	(14936903P Now JC-422890Y)	06 th Jun 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 21 Apr 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV KAMLESH KUMAR PATHAK	(14920185A Now JC-422891F)	02 nd May 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 28 Apr 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV DILIP KUMAR ROY	(14919937M Now JC-422892K)	02 nd May 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV RAJENDRA PRATAP	(14918921P Now JC-422893M)	01 st May 2016
HAV A JAFAR ALI	(14921026P Now JC-422894P)	16 th May 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV GURDEEP KUMAR	(14921926Y Now JC-422895X)	03 rd May 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV RANJIT KUMAR RANA	(14919063K Now JC-422896A)	03 rd May 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV LOK BAHADUR NEPALI	(14920198X Now JC-422897H)	01 st May 2016
HAV TONDALE BHIMRAO MARUTI	(14921592P Now JC-422898L)	02 nd May 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allowances)		

HAV MORBALE ANIL TUKARAM	(14921597N Now JC-422899N)	02 nd May 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV RAJ KUMAR	(14921047L Now JC-422900X)	02 nd May 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SHAUKAT ALI	(14926979F Now JC-422901A)	01 st May 2016
HAV KALU RAM	(14922043F Now JC-422902H)	22 nd Jun 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 24 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV TEK BAHADUR ALE	(14919026W Now JC-422903L)	01 st Jun 2016
HAV S SUNDARARAJ	(14918899P Now JC-422904N)	01 st Jun 2016
HAV RANAJIT ADITYA	(14919649A Now JC-422905W)	01 st Jun 2016
HAV ASHOKE KUMAR ROY	(14918933K Now JC-422906Y)	01 st Jun 2016
HAV SENTHIL KUMAR K	(14921022Y Now JC-422907F)	01 st Jun 2016
HAV VIRENDRA SINGH RANA	(14922484X Now JC-422908K)	01 st Jun 2016
HAV JARNAIL SINGH	(14920024X Now JC-422909M)	01 st Jun 2016
HAV ANISUR ROHAMAN	(14921182Y Now JC-422910F)	01 st Jun 2016
HAV N MUANMANG PAITE	(14922964F Now JC-422911K)	01 st Jun 2016
HAV ASHOK KUMAR BIJARNIYA	(14923013W Now JC-422912M)	01 st Jun 2016
HAV SUNIL BASNET	(14921813W Now JC-422913P)	02 nd Jun 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jun 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV DHARMENDRA KUMAR YADAV	(14921688X Now JC-422914X)	01 st Jun 2016
HAV YASHPAL SINGH	(14921529A Now JC-422915A)	01 st Jun 2016
HAV SURESH PRASAD KHATAIT	(14921731N Now JC-422916H)	01 st Jun 2016
HAV PADMA LOCHAN BISOYI	(14921612X Now JC-422917L)	01 st Jun 2016
HAV AJITH KUMAR K KUNNAMBATH	(14922614P Now JC-422918N)	01 st Jun 2016
HAV MUNNA KUMAR	(14921195W Now JC-422919W)	01 st Jun 2016
HAV RAJESH K	(14921321X Now JC-422921N)	23 rd Jul 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 21 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV ANIL KUMAR PANDEY	(14922508W Now JC-422922W)	23 rd Jul 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 21 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV DEBENDRA NATHA MAHARANA	(14921140M Now JC-422923Y)	23 rd Jul 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 21 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV BASANT KUMAR SINGH	(14921509M Now JC-422924F)	23 rd Jul 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 21 May 2016 without effect on pay and allowances)		
HAV SWARUP KUMAR MANDAL	(14918903M Now JC-422925K)	01 st Jul 2016
HAV KRISHNAMNI TIWARI	(14918943N Now JC-422926M)	01 st Jul 2016
HAV ATIAR RAHAMAN	(14918962Y Now JC-422927P)	01 st Jul 2016
HAV LINGA RAJU AV	(14919699L Now JC-422928X)	01 st Jul 2016
HAV SURAJ BHUSHAN CHOUDHARY	(14921728N Now JC-422929A)	01 st Jul 2016
HAV DIWAKAR TIWARI	(14921752K Now JC-422930P)	01 st Jul 2016
HAV BABU LAL	(14919668L Now JC-422931X)	30 th Jul 2016*
*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 20 Jul 2016 without effect on pay and allowances)		

HAV CLK (SD) YADAV JAYPRAKASH	(14924274W Now JC-422932A)	01 st Aug 2016
HAV CLK (SD) SATENDRA KUMAR	(14924287N Now JC-422933H)	01 st Aug 2016

TO BE NAIB SUBEDAR (RELIGIOUS TEACHER PANDIT)

Mohan Lal Vyas	(JC-422860F)	25 Jun 2016
Sukhendra Kumar Pandey	(JC-422290L)	01 Oct 2016

REGULAR ARMY

Armd Corps Records

To BE RIS MAJ

RISALDAR	TARA CHANDRA	(No JC244262A)	01/06/2016
RISALDAR	MARUTI GHALAGU TARALE	(No JC243851K)	01/05/2016
RISALDAR	KULDIP SINGH	(No JC244323M)	01/07/2016
RISALDAR	KISHAN SINGH	(No JC244122N)	01/08/2016
RISALDAR	SUNIL KUMAR K	(No JC243803K)	01/09/2016
RISALDAR	M CHANDRA SEKARAN	(No JC244441A)	01/05/2016
RISALDAR	TEJINDER SINGH	(No JC244113M)	01/09/2016
RISALDAR	RAJAN TALEKAR	(No JC244474L)	01/05/2016

To BE RIS

NB RISALDAR	DHARAMVIR SINGH	(No JC245348L)	01/08/2016
NB RISALDAR	MANBEER SINGH	(No JC245345X)	*05/08/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/08/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR	THOUDAM OPENDRA SINGH	(No JC244569L)	*10/04/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/12/2015 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR	YOGENDRA SINGH	(No JC245607H)	01/06/2016
NB RISALDAR	RAJBEER SINGH	(No JC245608L)	*06/07/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/07/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR	ANIL DATT SHARMA	(No JC245227K)	01/07/2016
NB RISALDAR	OM PRAKASH	(No JC245870N)	01/07/2016
NB RISALDAR	PRABHU RAM JAT	(No JC244874X)	*21/07/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 01/07/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR	BHAG SINGH	(No JC245036P)	01/07/2016
NB RISALDAR	RAKESH KUMAR	(No JC245136A)	01/07/2016
NB RISALDAR	CHABOLU KASANNA	(No JC244790K)	*24/05/2016
*(Granted Seniority in the Rank of RIS wef 11/05/2016 without effect on pay and allowances)			
NB RISALDAR	PAWAN KUMAR	(No JC245562N)	01/03/2016
NB RISALDAR	ARUN KUMAR	(No JC245016F)	01/12/2015

To BE NB RIS

DFR	BALVIR SINGH	(No 15462075A now JC247207P)	01/08/2016
DFR	VIJAY SINGH	(No 15463878Y now JC247196N)	01/09/2016
DFR	SULTAN SINGH	(No 15464717H now JC247197W)	01/09/2016

DFR	SATVEER SINGH	(No 15466268X now JC247203Y)	01/08/2016
DFR	SURINDER SINGH	(No 15466784M now JC247189X)	01/09/2016
DFR	JOTIBA KEDARI	(No 15467660K now JC247204F)	01/09/2016
DFR	MADAN LAL	(No 15468390M now JC247234Y)	01/09/2016
DFR	AVDESH KUMAR	(No 15468502F now JC247211X)	01/09/2016
DFR (CLKSD)	JAMES BENEDICT	(No 15470267M now JC247201N)	01/09/2016
DFR	M.MARI MUTHU	(No 15470453H now JC247195L)	01/09/2016
DFR (CLKSD)	G V NARAYANA	(No 15470525F now JC247200L)	01/09/2016
DFR	MOHINDER PAL SINGH	(No 15471457L now JC247202W)	01/08/2016
DFR	SIVAJI S	(No 15471539N now JC247199F)	01/09/2016

SANJAY GUPTA
Under Secretary

(ARMY BRANCH)

No. 254, dated 7th November 2016—The President is pleased to make the following appointment: -

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(to be Lt w.e.f 16 Mar 2013)

C O R R I G E N D U M

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to SSC(Tech-38) course published in the Gazette of India dated 17 May 2014 under the heading “Short Service Commission” in the Regular Army is here by amended as under: -

For	RATHOD LAXMAN RAMULA	SS-46400L	EME
Read	LAXMAN RAMULA RATHOD	SS-46400L	EME

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(to be Lt w.e.f 02 Sep 2000)

C O R R I G E N D U M

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to SSC-70 course published in the Gazette of India dated 16 Jun 2001 under the heading “Short Service Commission” in the Regular Army is here by amended as under :-

For	SHALYA CHAUDHARY	SS-38791M	INF
Read	SHALYA CHAUDHARY	SS-38791M	INF

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(to be Lt w.e.f 01 Sep 2001)

C O R R I G E N D U M

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to SSC-72 course published in the Gazette of India dated 31 Aug 2002 under the heading “Short Service Commission (On Probation)” in the Regular Army is here by amended as under :-

For	ASHWINI KHULLAR	SS-39272W	AC
Read	ASHWANI KHULLAR	SS-39272W	AC

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
(to be 2/Lt w.e.f 25 Aug 1990)

C O R R I G E N D U M

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to SSC-50 course published in the Gazette of India dated 02 Mar 1991 under the heading “Short Service Commission (On Probation)” in the Regular Army is here by amended as under :-

For	RAJENDER KUMAR SHARMA	SS-34549A	ARTY
Read	RAJINDER KUMAR SHARMA	SS-34549A	ARTY

ABHISHEK TEWARY
Maj
AMS 8B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in